# "I Don't Care": Musk Says Will Tweet **Thoughts Regardless Of Business Blowback**

UNITED STATES: (AGENCY)

Elon Musk on Tuesday said

Elon Musk on Tuesday said a new Twitter chief executive will let him devote more time to Tesla, but that he will continue to tweeth its unfiltered thoughts even if it hursh his businesses. bill-linaire said during a CNBC interview when asked worstall tweets potentially hurting Tesla shares or making it harder to sell ads on Twitter. Till say what I want to say and if the consequence of that is losing money, so be it."

Named as Musk's successor as Twitter is very much an advertising executive considered a visionary by some. Twitter is very much an advertising business; Linda is obviously incredible at that and she's just a great executive in general control of the control

general," Musk said.

"Linda will operate a
company and I will build
products." Since taking over
Twitter in late October,



Musk has repeatedly court-ed controversy, sacking most of its staff, readmitting banned accounts to the plat-form, suspending journal-ists and charging for previ-ously free services. Those moves have spooked adver-tisers, many of whom left the platform due to con-cerns over their products being associated with trou-bling content. Musk has also cleared the way for Donald Trump to return to Twitter, but the former US president banned accounts to the plan

cism of content moderation around the 2020 election, Twitter recently admitted it yielded to Turkish govern-ment pressure to take down instead. Were Trump to return and post unfounded claims about the 2020 elec-tion, a "community notes" feature would let Twitter users point out the misin-formation, Musk told CNBC, ment pressure to take down content ahead of last week-end's elections. "We received what we believed to be a final threat to throtto be a final threat to throt-the the service -- after sever-al such warnings," the com-pany said Monday, amid outcry over the apparent hypocrisy. "And so in order to keep Twitter available over the election weekend, adding that he did not per-sonally think the election was "stolen" as Trump alleges. Despite Musk's stat-ed positions on free speech, as well as his fierce criti-

www.opensearch.co.in

Since taking over Twitter in late October, Musk has repeatedly courted con-troversy, sacking most of its staff, readmitting banned accounts to the platform, suspending journalists and charging for previously free serv-

took action on four accounts and 409 Tweets identified by court order." Musk told CNBC he will be Musk toll CNBC he will be focusing especially on artificial intelligence back at Tesla, which already uses such technology for self-driving capabilities. "I think Tesla will have a ChatGPT moment," If 4 say no later than next year," Musk said of Tesla Al used for autonomous driving, ChatGPT bots from startup. autonomous drivir ChatGPT bots from starts Chatt/PT bots from startup OpenAI, which Musk helped create, have captured imag-inations and provoked fears regarding powerful artifi-cial intelligence. "I am the reason OpenAI exists," Musk claimed, noting he invested

#### 875,000 Afghan Children Facing Acute Malnutrition: Rights Group

Afghanistan remains one of the world's worst humani-tarian disasters as Human Rights Watch in a recent report on Afghanistan said that two-thirds of the counthat two-thirds of the coun-try's population is food inse-cure, reported Tob News. "Afghanistan has largely dis-appeared from the media, but it remains one of the world's worst humanitarian disasters," said the HRW report.

As per the reports, after the han on women working

As per the reports, after the ban on women working for NGOs, the crisis has become more severe. It said 875,000 children face acute malnutrition, reported Tolo

analhuttifion, reported Tolo News.
"Two-thirds of the country's population is food insecure, including 875,000 children facing acute malnutrition. Women and girls remain most at risk," said Human Rights Watch.

According to the Human Rights Watch.

Human Rights watch.

According to the Human Rights poort and hungrier, reported Tolo News. The additional information 1 have is that the human Itafarian situation remains critical in



Afghanistan and our opera-tions also remain under-funded," said Stephane

tions also remain under-funded." said Stephane Dujarric, Spokesman for the United Nations Secretary-General Antonio Guterres. Earlier, World Bank in its report had said that Afghanistan is among one of the seven countries which face a catastrophic level of food crisis.

food crisis.

According to the report, the seven food crisis-hit countries include Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Nigeria, Somalia, South Sudan, and Yemen.

South Sudan, and Yemen.
The number of people experiencing food crises in these countries is the highest since the Global Report on Food Crises started reporting data in 2017.

Meanwhile, UNICEF has also warned that it is

has also warned that it is facing a back of critical food aid in Afghanistan due to a shortage of funding, amidst a widespread humanitarian crisis in the country.

Melanie Galvin, chief of nutrition at the United Nations Chikfren's Fund (UNICEF), in a video message on Twitter, said that thousands of vulnerable chikfren could die from severe malnutrition in Afghanistan this year alone.

Galvin further added the global food organization

Galvin further added the global food organization faces an urgent funding gap of USD 21 million to buy essential supplies for treat-ing malnutrition and train-ing health workers around the country.

#### **UK Lawmakers Say** Crypto Should Be Regulated As Gambling

LONDON: (AGENCY)

Bitcoin, ether and other cryptocurrencies should be regulated as gambling given they are potentially used by fraudsters and pose significant risks to consumers, a panel of UK lawmakers said in a

Britain is planning its first rules for cryptoassets, which cur-rently only comply with comply with anti-money laundering safeguards. Bitcoin and ether account for two-thirds of all cryp-toassets and are backed

any currency or asset, lead-ing to volatility in prices and the potential for all money invested in them

money invested in them to be wiped out the report from parliament's treasury committee said. Regulating retail trading and investment in unbacked cryptocurrencies could create a 'halo' effect that leads consumers to think the activities exfert than it is or ity is safer than it is, or protected when it is not, it

protected when it is not, it said

"We therefore strongly recommend that the Government regulates retail trading and investment activity in unbacked cryptoassets as gambling rather than as a financial service consistent with its service, consistent with its stated principle of 'same risk, same regulatory out-come'," the report said.

The Financial Conduct Authority has repeatedly Authority has repeatedly warned consumers they could lose all of their money invested in crypto c rurrencies globally have a total market capitalisation of about \$1.2 trillion, a tiny part of the financial system, but the collapse of crypto firm FTX exchange last year



introduced greater urgency into regulating the sector. "The events of 2022 have highlighted the risks posed to consumers by the cryptoasset industry, large parts of which remain a wild west," said Harriett Baldwin, chair of the treasury committee.

Around 10% of UK adults hold or have held cryptoassets, according to official figures. The European

official figures. The European Union approved the world's first set of comprehensive rules for crypto markets on Tuesday. International regulators are due to propose global norms shortly. The underlying technology used by cryptose.

nology used by cryptoas-sets has the potential to improve efficiency in pay-ments, the report said.

## **Biden Calls Off Trip Amid Debt Crisis**

The US president who flies to Japan on Wednesday for a G7 summit scrapped sub-sequent stops in Papua New Guinea and Australia, instead returning to Washington on Sunday

UNITED STATES: (AGENCY)

Joe Biden and opposition Republican leaders on Tuesday offered hope of a deal that could avoid a cata-strophic US debt default, although the president was forced to shorten an upcoming Asia-Pacific tour for further crisis talks. After the latest negotiations ended without a break-through, Republican House ened without a break-through, Republican House speaker Kevin McCarthy toll reporters there was still "a lot of work to do" to break the high-stakes standoff with Democrat Biden over the borrowing limit. But while stark differ-ences remained, the White House said Biden was "opt-mistic that there is a path to a responsible, bipartisan budget agreement if both sides negotiate in good faith." And McCarthy like-wise indicated he ultimately wise indicated he ultimately wise indicated he ultimately expected a deal, even if so far "nothing has been resolved." "America is the number one economy in the world. And when we get done with these negotia-tions, America's economy is going to be stronger," he eard

The US president The US president --who flies to Japan on Wednesday for a G7 summit -- scrapped subsequent stops in Papua New Guinea and Australia, instead

returning to Washington on Sunday. In Sydney, Biden was meant to meet the leaders of Japan, India and Australia as part of a "Quad" groupas part of a Quad group-ing widely seen as a counter to China. Australian Prime Minister Anthony Albanese said Quad talks would instead take place in Japan.

Republican leaders on his return from the G7 meet-ings. Republicans have con-tinued to insist Biden agree tinued to insist Biden agree to significant spending cuts in exchange for their support to raise the debt ceiling, ignoring Democratic calls for a "clean" increase of the borrowing limit with no strings attached. Democrats



Australia Cancels Quad Summit After

The Treasury has warned of grim consequences if the country runs out of cash to pay its bills, which would eave it unable to pay federal workers and trigger a likely surge in interest rates with knock-on effects for businesses mortgages - and knock-on effects for businesses, mortgages -- and global markets. The United States could begin defaulting on its debts "potentially as early as June 1," Treasury Secretary Janet Yellen said Monday, while the nonparties on Compressional Budget. Monday, while the nonparts san Congressional Budget Office has forecast June 15. The White House said Biden had directed his staff "to continue to meet daily on outstanding issues," and that he would confer with

have accused Republicans of using extreme tactics to push their agenda ahead of the so-called "X-date" at which the United States starts defaulting on its debts. In a sign of growing nervousness over what would be the first ever US debt default more than 140 top US chief executives sent a letter to Biden and congressional leaders stressing the need for an agreement. We strongly urge that an accord be reached

"We strongly urge that an accord be reached quickly so that the country can avert this potentially devastating scenario," the letter signed by the CEOs from Pfizer and Morgan Stanley, among others, said.

Breaking the stalemate Republicans, who regained control of the House in the 2022 midterm elections, are using their newfound clout to demand cuts of \$130 bill-like form coloral pains to demand cuts of \$130 bil-lion from federal agencies and programs in exchange for support for lifting the debt ceiling. This would limit spending in the 2024 fiscal year to 2022 levels. They also want to expedite Instal year to 2022 Evels. They also want to expedite domestic energy production projects, simplify the process for obtaining permits for pipelines and refineries and claw back unspent Covid relief funding. There are now only three days remaining when the House and Senate are both in session before June 1... the day the Tressury. both in session before June
1 – the day the Treasury
predicts the United States
could run out of money.
Some senators have
acknowledged that they
may have to cancel the
Memorial Day recess begin
ning Thursday to get a deal
finalized. As the X-date
draws closer, Democrats in
Congress have begun considering a range of alternatives, including using an
arcane congressional procedure.

to bypass McCarthy. to bypass McCarthy.
They've also contemplated asking Biden to invoke the 14th
Amendment to raise the debt ceiling unliaterally, which some legal scholars believe would allow the Treasury to simply ignore the debt limit. But Biden has cautioned that such a move the debt limit. But Biden has cautioned that such a move could be challenged in court, and has continued to call publicly for Republicans to support a clean increase to the debt ceiling.

### **Briefs** News

#### **Elon Musk Reverses** Course And Says Tesla Will Advertise Its Cars

SAN FRANCISCO: (AGENCY)

SAN FRANCISCO: (AGENCY)

Tesh Inc boss Elon Musk, who has never used traditional advertising to sell cars, said on Tuesday that the automaker would try it and see whether it produced results. Musk said it was "ironic" that as (EOO of Tesh, he now owns Twitter. The social media platform is highly dependent on ads and will soon be led by advertising veteran Linda Yaccarino, who he hired last week. "So I guess I should say advertising is awesome, and everyone should do it," Musk said at Tesh's annual shareholder meeting in Austin, Texas. "Well by out a little advertising and see how it goes." It underscores his efforts to shore up investor confidence in the car maker's prospects at a time when rising competition and a slow economy has forced Tesk to sash prices. Since Musk acquired Twitter in October, advertisers have fied the social media platform, worried that their ads could appear next to inappropriate content after that company loss nearly 80% of its staff. Musk has for years were deed the social media platform, worried that their ads could appear next to inappropriate content after the company loss nearly 80% of its staff. Musk has for years advertising" and "We use that money to make the product great," But on Tuesday, he said many people did not know about the affordability of Tesh cars and their "amazing" features and functionality.

Nepali Climber Makes

#### Nepali Climber Makes Record, Climbs Mount **Everest For 27th Time**

NEPAL: (AGENCY)

NEPAL: (AGENCY)
Nepali climber Kami Rita Sherpa reached the top of Mount Everest for the 27th time on Wednesday, reclaiming the record for the most summits of the world's high-set mountain. The successfully reached the summit this morning guiding a Vietnamese climber, Mingma Sherpa of Seven Summit Treks, his expedition organiser, told AFP. The 53-year-old had held the title since 2018, when he ascended Everest for the 22nd time, passing the previous mark he shared with two other Sherpa climbers, both of whom have since retired But on Siunday another climber, Passang Dawa Sherpa, 46, tied the record by reaching the top for the 26th time. A guide for more than two decades, Kami Rita Sherpa first summitted the 8,348-metre (29,029-foot) peak in 1994 when working for a commercial expedition.

## The Quick, Deep Thinker Leading OpenAI

SAN FRANCISCO: (AGENCY)

SAN FRANCISCO: (AGENCY)

An influential Silicon Valley presence for more than a decade, OpenAI CEO San Altman is emerging as the tech titan of the AI age, riding the wave of ChatGPT, the both his Company Company of the Company of t

others in starting OpenAI, a others in starting upenal, a research company with a stated goal of building generative AI that benefits humanity. "The technological progress we make in the next 100 years will be far larger than all we've made since we first controlled fire and invented the wheel." and invented the wheel," Altman said in a 2021 blog post. Born in 1985 into a



Jewish family, Altman grew up in a St. Louis suburb, where he got his first com-puter at the age of eight, according to along profile in the New Yorker from 2016. Computers and the access to online community they enable helped him nav-igate being gay in a conser-vative part of the country, Altman said in an interview with Esquire. with Esquire.

with Esquire.
Like so many tech figures before him, Altman dropped out of Stanford University to start a company, Loopt, which let smartphone users selectively share their whereabouts.
Loopt was acquired in 2012 in a deal valued at \$43.4 million - and Altman's place in Silicon Valley was secured Altman

took a year off during which he "read many dozens of textbooks; I learned about the fields that I had been interested in," the San Francisco resident wrote in a post. He told of learning about nuclear engineering a post. He tota or Earning about nuclear engineering, synthetic biology, investing, and Al. "The seeds were planted for things that worked in deep ways later," he said. In 2014, Altman became president of Y worket in teeth ways alter, he said in 2014, Altman became president of Y Combinator, an 'accelerator' that provides startups with guidance and funding in exchange for stakes in the young companies. Altman expanded Y Combinator's strategy for investing beyond software startups to biotech, energy, and other fleks. "He thinks quickly and talks quickly intense, but in a good way,' said Industrial Microbes founder Derek Greenfield, who met Altman while his biotech startup was getting backing from Y Combinator. from Y Combinator. Greenfield recalled Altman

always dressing casually, sometimes in a T-shirt and shorts. "He was very down to earth," Greenfield said. Altman left Y Combinator, Altman left Y Combinator, putting his energy into artificial intelligence despite feared risks. "He's a very deep thinker who is incredibly focused on getting things right," Insider Intelligence senior director of marketing and commerce Jeremy Goklman.

CAPITAL FINVEST LIMITED

NOTICE

the wess...
w.capfin.in and on the wessess.
change, www.msei.in
For Capital Finvest Limited
Sdd.

RATTAN SINGHANIA (Wholetime Director) DIN: 00147685



#### **TLIMITED**

(CIN NO.-L18101DL1978PLC009241)

Regd. Office: 879, Master Prithvi Nath Marg, Karol Bagh, New Delhi - 110005
bsite: www.ttlimited.co.in : TEL: +91-11-45060708

HiFlyers

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023											
(Rs. in Lakhs)											
S.		Q	UARTER ENDE	YEAR ENDED							
NO.	PARTICULARS	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022					
140.		AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED					
1	Total Income from Operations (Net)	5,829.32	4,815.27	7,485.40	20,302.72	39,554.16					
2	Profit/(Loss) before Exeptional and tax	(560.57)	143.56	151.34	(895.86)	1,494.15					
3	Exceptional items	-	-	-	-	-					
4	*Net Profit/(Loss) for the period before Tax	(560.57)	143.56	151.34	(895.86)	1,494.15					
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(315.52)	82.55	110.22	(1,267.23)	1,453.03					
6	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	(255.52)	44.82	25.71	(1,259.86)	1,375.67					
7	Equity Share Capital	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2149.81					
8	Other equity (Reserves)	-	-	-	4,564.80	5824.66					
9	Earnings Per Equity Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-										
	Basic (Rs.)	(1.47)	0.38	0.51	(5.89)	6.76					
	Diluted (Rs.)	(1.47)	0.38	0.51	(5.89)	6.76					

tes:

The above is an extract of the detailed format of standalone Audited Financial Results for the quarter and year method March the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Regulations, 2015, TI adversard quaterly and year ended Financial Results are available on the website of BSE (www.bseindia.com), NSE (w and on the Company's website: www.tillmited.co.in)

These Audited Financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors meetings held on May 17, 2023.

#### एक नजर

#### हरियाणा विज्ञान रत्न एवं हरियाणा यवा विज्ञान रत्न पुरस्कारों हेत् आवेदन आमंत्रित : डीसी

झज्जर/बहादुरगढ.ओपन सर्च हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा वर्ष 2023 के लिए हरियाणा विज्ञान रत पुरस्कार तथा हरियाणा युवा विज्ञान रत परस्कारों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



पुरस्कार के रिएं (अजार ५५ जाजारका) के क्षेत्र में अपनी उक्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिकों से 31 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। डीसी कैप्टन शकित सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाण विजान रत्न परस्कार के तहत पांच लाख रुपए का नकद परस्कार. प्रशस्ति पत्र ाब्बान तब पुस्कार के तहते पाय लाखा रूपर का नकर पुस्कार, प्रशांत पाय की र्यं पूर्व के किये हों। की र्यं प्रशांत के तह एक लाखा रूपर का नकर पुस्कार के तह एक लाखा रूपर का नकर पुस्कार, प्रशांत पत्र और ट्रॉफी यी जाएगी। हरियाणा विज्ञान रक्ष पुस्कार रवि क्यों के की आयु जाले प्रख्वात वैज्ञानिकों की जावकी रियाणा वृद्धा विज्ञान रह पुस्कार से कम की आयु जाले प्रख्यात वैज्ञानिकों की शिष्ट जाले प्रख्यात वैज्ञानिकों की हिए जाएगी। उन्होंने जाता कि पुस्कार से जुई दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी dst.highereduhry.ac.in/ / पर देखी जा सकती हैं।

#### लात-घुसे और फिर पथराव, पुलिस के सामने दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद; वायरल हुआ वीडियो

रेवाड़ी (एजेंसी) एक गांव में जमीन को लेकर अक्सर विवाद होने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक ममला रेवाड़ी जिले से आया है। जहां एक गांव में जमीन को लेकर ऐसा विवाद हुआ किया दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लात-घसे चले. यहां तक की पथराव भी किया गया है। जमीन विवाद का ये मामला राजगढ गांव का है।

पुलिस को जब इस मामले की सूचना लगी तो टीम ने मौके पर पहुंचक बीच-बचाव का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे। अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से प्रश्निक देश करिया है। जेना पिन इस नानरा में किसा ना पश्च की जार से प्राथमिकी दर्ज नहीं करलाई पहुँ है। पूरी घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथयव करते और जम कर लात-चूमे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिसकर्मी भी इस वीडियो में लड़ाई के दौरान नजर आ रहे है। यहां तक कि पलिस की तरफ से वीड़िये बनाए जाने को लेकर भी खबर है। हालांकि, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वीडियो कब का है।

#### चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी आप, जालंधर के लिए सीएम मान का बड़ा ऐलान

जातंधर (एजेंसी) जालंधर लोकसभा उपचुनाव में सतारूढ़ आम आदमी पार्टी की जीत ने नई सियासी इबारत लिख दी है। उपचुनाव के नतीजों से पार्टी और पार्टी के नेताओं का सियासी कद् भी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जनता के बीच अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे हैं।

भाग जाता के बीच पहुंच रहे सीएम मान अब जात्नेघर के लिए विकास जनता के बीच पहुंच रहे सीएम मान अब जात्नेघर के लिए विकास की नई लहर लेकर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि अपने जा्तंचर दौरे के दौरान वहु आदमपुर में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवा रेरी, जिसका वायदा उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। गौरतलब है कि सीएम मान ने जालंधर उपचुनाव के दौरान जनता से कई वादे किए थे और अब इन्हीं चुनावी वादों को अब जमीन पर लाने की तैयारी है।

#### सौतेली मां ने कर दी बच्ची की हत्या. होगी पूछताछ; पुलिस कराएगी पोस्टमार्टम

पुरासा प्रतिशा अमृतसर में मां और बेटी के रिश्ते में कड़वाहुट का उक्तरण देखने को मिला ही घरिंडा थाने के अधीन पड़ते गएनए गांव में सात सात को अभिगेजपती कोर की हरता के मामले में पुलिस में मालवार की देर रात उसकी सीतेली मां ज्योंति को गिरफ्तार कर दिला है। घटना के बाद बुधवार की सुक्त पुलिस में मालवार की देर रात उसकी सीतेली मां ज्योंति को गिरफ्तार कर दिला है। घटना के बाद बुधवार की सुक्त पुलिस में मिला की एक रिस्तेदर को भी शिरासत में दिला है। पुलिस की अब यह सुई अविध संख्यों की कहानी पर मुम्ते लगी है। डीस्पर्सा परिक बोधा दो बता बात कि वौन्में महिलाओं से पृष्ठताछ जारी है। आशंका जताई जा रही है कि ज्योंति की रिश्ते में त्यारी बहान की किसी युकक के साथ अवैध संख्ये के और बच्ची अभिगोजरीत कीर ने अने रेख दिला था। जबर पहिल्ल कवी को परिस्तार्थन करना की तीरायी ने उसे देखा लिया चुन्य में साथ प्रस्त वना के पोरचान्य गार्यमार्थ भीने कर रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम चार बजे अभिरोजग्रीत करें रहा से कुछ ही दूरी पर ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी और लीटक नहीं आई। जब पुलिस को घटना के बारे में जानकारी मिली तो जांच शुरू की गई। जाहों जब नुस्तित जो बन्दान जान का जानकार्य महाता वा वाय चुंहिल्य कर वार्च में सामने आया कि बन्ची के पिता अजीत सिंह पेसे से राजिस्स्त्री हैं और उनका पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। अब वह ज्योति उर्फ मानी नाम की महिला से दूसरी शादी कर चुका है।

#### फरीदाबाद में कौशल गिरोह के सदस्य टेकचद खेडी के घर एनआईए की छापेमारी

फरीदाबाद (एजेंसी) गांव खेडी कला में गैंगस्टर टेकचंद के घर का एनआईए की छापेमारी। टेकचंद कौशल गिरोह का बदमाश है। हरियाणा कांग्रस

ए-आइए का ख्रममाथा एकचर कारता गयात का बरायात है। हारायाण काराय ग्रह्म प्रकला कियान चीचरी की हत्या में आया था नाम सामने। गैमस्टर टेकचंद यूपी के रणदीप भादी ग्रहों से भी जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर शिक्ष एनसीआर में लूट, इनैती, हत्या, हत्या का प्रयास सहित 25 से अधिक मुक्तदेंगे दंशी क्लिसमें चीचरी की हत्या में नाम सामने आने के बाद साल 2020 में क्राहम बाँच ने टेकचंद को गिमसात किया था। तब से जेल के अंटर ही आयोगित हैं। फिलाइल एनआईए की टीम आयोगित के गांव खेड़ी करता स्थित घर में मौजूद है। घर के बाहर फरीदावाद पुलिस की टीम मौजूद है। चंद के घर में उसकी मां पत्नी का छोटा भाई भी मौजूद है। एनआईए की टीम ने उन्हें भी घर के अंदर ही ग्रेक कर रखा हुआ है। बाहर एनआईए की टाम न उन्ह भा घर क अदर हा एक र से किसी को घर के पास जाने की अनुमति नहीं है।

#### करनालः आरपीआईआईटी के मालिक भरत सिंघल का अपहरण, पुलिस की वर्दी में आए थे बदमाश- गाड़ी में डॉलकर हुए फरार

करनाल (एजेंसी) बसताड़ा स्थित आरपीआईआईटी के मालिक सिंघल का चार लोगों ने अपहरण कर लिया। युवक पुलिस की वर्दी में आये थे। ब्रुड्स की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर ख़त्वाची शुरू कर दें हैं। मालवार की सुबंद करीब साढ़े 11 बजे आरपीआईआईटी क्लॅलेज के मालिक भरत सिंगल अपनी गाड़ी में सवार होकर मिल से कॉलेज जा रहे थे।

्राज्य । त्तानार स्वकर । भारा स कालज जा रहे थे। इंडबर सतपात सिंह की शिकायत के मुताबिक, काबोपुत के सामने एक बेगनाआर ग्रे करत की गाड़ी ने हाथ देकर हमारी गाड़ी रुकवाई। उसमें से 3 युपी पुलिस की वर्दी में थे और एक सिविट्ल ट्रेंस में था। जैसे हमने गाड़ी रोकी, उन्होंने भरत सिवंदल का नाम प्रकार उन्होंने अन्या नुषा जुरार के अबसे ने पार दिस्ता किया है कि साम पहार उन्होंने अपना नाम बताया। तभी उनको गाड़ी से बहार जबरदस्ती निकालकर बाहर ले गए और अपनी गाड़ी वैगनआर के अंदर डाल् दिया। गाड़ी वैंगनआर मेरठ की तरह मुड़ गई, फिर् वह भरत सिंघल को लेकर फरार हो गए। घटना के बाद डाइवर ने इसकी पहुंचना कॉर्लन प्रबंधन को दी। जिसके बाद कॉलेंज प्रबंधन के साथ मधुबन धाने में पहुंचे और वहां भी लिखित में शिकायत दी। धाना प्रभारी तरसम ने बताया कि भरत् सिंग्रल के अपहरण की शिकायत दी। धाना प्रभारी तरसम ने आधार पर 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।

# मृतक छात्रा के परिवार को एक करोड़ देने का था निर्देश, मिले मात्र 20 लाख



चंडीगढ़ (एजेंसी)

कार्मेल कान्वेंट हादसे के बाद प्रशासन का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चुप्पी साध कर बैठ गया है। प्रशासन द्वारा जस्टिस चौहान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने कार्मेल कान्वेंट हादसे में मृतक छात्रा के परिजनों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात कही थी लेकिन प्रशासन ने मात्र 20 लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इसी प्रकार हादसे में अपना हाथ गंवाने . वाली छात्रा के परिजनों को जस्टिस चौहान ने 50 लाख रुपए का

मआवजा देने की बात कही थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में हाटसे में हाथ का परा खर्च देने की बात भी कही थी। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में अब यह खुलासा हुआ है कि जस्टिस चौहान् की कमेटी ने मतक छात्रा के परिजनों को एक करोड़ रुपए रुपए देने की बात कही थी। आरटीआई एक्टिविस्ट राम कुमार गर्ग ने सूचना के अधिकार के

तहत जानकारी मांगी थी। जिसमें यह

बात सामने आई है कि जांच कमेटी ने

जस्टिस चौहान की कमेटी ने मृतक छात्रा के परिजनों को एक करोड़ रुपए रुपए देने की बात कही थी। आस्टीआई एक्टिवस्ट राम कुमार गर्ग ने सुचना के अधिकार के तहत . जिस्तारी प्रांगी थी।

घायल ब्राजा को भी 50 लाख रूपया गवजा देने के लिए सिफारिश की लेकिन प्रशासन की ओर से उसे भी 10 लाख मआवजा दिया गया है। इस हादसे छात्रा की मौत हो गई थी और अन्य छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई थी। मालूम हो कि पिछले साल

8 जुलाई को यह हादसा हुआ था। इस हादसे में अन्य छात्राएं भी घायल हुई थी। जब यह हादसा हुआ था तो परा शहर गमगीन हो गया था। रिटायर्ड जज चौहान के नेतृत्व में गठित कमेटी ने प्रशासन के इंजीनियरिंग विंग की गलती बताई थी, का जमा (क काइ जता पता महा हा रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हुई जांच रिपोर्ट में कुछ अन्य सिफारिशें भी की

होंने कहा कि हमारा किसी से द्वेष हीं, हमारा किसी से विरोध नहीं,

ना ही हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ

है। हम तो चौ देवी लाल का स्वप साकार करने के लिए जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों का

पाकन किसी की भी दीधी बनीते हुए, जिम्मेबारी तय नहीं की गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि हादसा इंजीनियरिंग विभाग की चूक के कारण हुआ क्योंकि अधिकारियों ने मौंके का दौरा नहीं किया और पेखें के स्वास्थ्य दौरा नहीं किया और पेड़ों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशिष्ट पोटोकाल तैयार नहीं किया गया प्राटाकाल तथार नहां किया गया। जरूरत पड़ने पर पेड़ों की कटाई छटाई और उनकी देखभाल की जानी चाहिए थी। आरटी आई एक्टिविस्ट आर के गर्ग का कहना है कि सूचना के अधिका के तहत उन्होंने पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। कमेटी ने जो मुआवजा देने की सिफारिश की ूथी उतनी राशि का मआवजा नहीं दिया गया। उनका कहन है कि इस मामले में रिटायर्ड जज की कमेटी से पहले प्रशासनिक कमेटी का भी गठन किया गया था। जिसकी रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है।

तसे अस्पताल में व्य अस्पताल म भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपितों के

रिवलाफ कार्रवार्ड करते हुए अदालत में पेश किया, जहां दो मुख्य गई थी ताकि भविष्य में फिर से यह हादसा न हो। जिसको भी प्रशासन ने

### शिअद के पूर्व सरपंच के बेटे ने युवक को मारी गोली

लिधयाना में नेता के बेटे की दबंगई देखने को मिली है। शिअद के सरपंच के बेटे ने अपने दोस्तों साथ मिलकर एक युवक पर गोली चलाई। 15 मई की इस घटना में करीब 14 से ज्यादा लोग शामिल थे। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और

आरोपितों को रिमांड पर भेज दिया गया है। वॉलीबॉल खेल कर घर लौट रहे युवक पर कार सवार शिअद के पूर्व सरपंच के बेटे ने गोली चला दी। येँ गोली यवक के बाज में जा लगी। य नाता युवक के बाजू में जो लगा। युवक का काफी खून बहने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में युवक कराजा गंजा गंजार हालत में युउक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब थाना डेव्हलों पुलिस ने गांव झम्मट निवासी कमलजीत सिंह, गुरसिमरन सिंह, गांव कलाड़ निवासी जगजीत सिंह, सुखविंदर सिंह तथा उनके 10 अज्ञात साथियों पर हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट तथा अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस कमलजीत सिंह तथा गुरसिमरन सिंह

कमलजात सिंह तथा गुरासमस्त सिंह को गिरप्तार कर लिया। गौरतलब है कि पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरत कार्रवाई की है। पुलिस ने कमलजीत सिंह कारवाइ का हा पुलिस ने कमलजीत सिंह तथा गुरसिमरन सिंह के कब्जे से लैंसर कार, एक रिवाल्वर, 4 जिंदा कारतूस तथा 3 चले हुए खोल बरामद किए

हैं। दोनों आरोपितों को बधवार अदालत में पेश किया। जहां से रिमांड हासिल करने के बाद कड़ी पूछताछ की जा रही है। एएसआई जसविंदर सिंह ने बताया कि उक्त केस गांव निगल निवासी प्रदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि 15 मई की रात 9.15 बजे वो अपने दोस्त हरविंदर सिंह के साथ गांव गोपालपुर में वॉलीवॉल खेल कर अपने मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था।

#### गाडी के लिए फैंसी नंबर चाहिए तो हो जाएं तैयार.चंडीगढ RLA करेगा नीलामी: ऐसे करें अप्लाई

चंडीगढ़ (एजेंसी)

चंडीगढ़ को कारों का शहर कहा जाता है। वहीं शहर के लोगों को गाड़ी के लिए फैसी नंबर खरीदने का खासा क्रेज रहता है। लोग अपनी गाड़ी के लिए पसंदीदा नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपये तक खर्च कर देते हैं। ऐसे में एक बार फिर से शहर में फैसी नंबरों की ऑक्शन होने जा रही है। आरएलए विभाग वाहनों के फैसी नंबर की ई-नीलामी करवा रहा है। नीलामी में ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 17 मई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इच्छुक लोग 23 मई शाम पांच बजे तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं ई-नीलामी के लए बोली 24 मई सुबह 10 से 26 मई शाम पांच बजे तक लगा सकेंगे। बोली लगाकर लोग अपनी मनपसंद का नंबर खरीद सकते हैं। र्राजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) की तरफ से इस बार ई-नीलामी में नई सीरीज सीएच 01 सीक्यू के नंबरों की बोली लगाएगा। नई सीरीज के साथ- साथ पुरानी सीरीज के बचे हुए फैंसी नंबरों की भी ऑक्शन करेगा। पुरानी सीरीज में सीएच01 सीपी, सीएच 01सीएन, सीएच 01सीएम, सीएच01सीएल, सीएच 01सीके सीएच01सीजे. सीएच01सीजी



सीएच 01सीएफ सीएच 01सीई सीएच 01सीडी, सीएच 01सीसी को शिमाल किया गया है। इसके अलावा सीएच 01सीबी, सीएच 01सीए, सीएच 01बीजेड, सीएच 01बीबाई, सीएच 01बीडब्ल्यू, सीएच सीएच 01बीजिङ, सीएच 01बीजिङ, सीएच 01बीडब्ल्यू, सीएच 01बीएक्स, सीएच 01बीजी, सीएच01बीटी, सीएच 01बीएस, सीएच 01बीआर, सीएच 01बीपी सीएच 01बीएन, सीएच 01बीएम सीएच 01 बीएल, सीएच 01बीके, सीएच 01बीजे और सीएच 01बीएच

## कर्नाटक से शुरू हुआ भाजपा का पतन : ओमप्रकाश चौटाला

ओमप्रकाश चौटाला बोले-परिवर्तन यात्रा से चली प्रदेश में बदलाव की लहर

**बहादरगढ।** इंडियन नेशनल बहादुरमाइ। इंडियन ने रंगरनल लोकदल के राज्येण अध्यक्ष ची. ओमप्रकाश चीटाला ने भावजा पर एक बार फिर जुबानी हमला बोला हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी हैं और हरियाणा में भी निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भावजा का भूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ची. ओमप्रकाश चौटाला मंगलवार को झज्जर के पार्टी कार्यालय में इनेलो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने की, जबिक मंच संचालक पैक्स के चेयरमैन रामनिवास सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर गांव में भाजपा सरकार का जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि भाजपा की कुनीतियों से प्रदेश की जनता दुखी व परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के



है. इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह जनता की मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करे।

उन्होंने कहा कि हमारी सोच चौ. देवी लाल के दिखाए रास्ते पर या. देवा ताल के दिखाँ से सर चलने की है। चौ. देवीलाल ने लोगों के लिए संघर्ष किया ताकि उनकी मूलभूत जरूरतों रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधा का बंदोबस्त सरकार करें। उन्होंने का बंदोबस्त सरकार करें। उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मैं प्रदेश के दुख-तकलीफ का तुरंत निपटान किया जाता था। जबकि आज प्रदेश के हालात खराब हो चुके विकास के नाम पर एक नई ईंट नहीं लगी। स्कुलों में शिक्षक नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयां नहीं हैं। जनता पर नाजायज टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। देश का पैसा टक्स लगाए जा रह हा दश का पसा अंवानी, अञ्चानी जैसे पूंजीपतियों की जेवों में जा रहा है। चौ. ओमप्रकाश चौटाला ने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है और परिवार पहचान पत्र के नाम पूर लोगों को परेशान किया जा रहा है।

आपस में जोड़ने के लिए गांव-गांव परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों का झुकाब इनेलो की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस लड़ाई के सुखद परिणाम निकलेंगे। आने वाले दिनों में इनेलो की सरकार बनेगी। इस अवसर पर की सरकार बनेगी। इस अवसर पर बेरी हलकाध्यक्ष बलराज खरहर, बादली हलकाध्यक्ष रमेश. एसर्स सेल के जिलाध्यक्ष मास्टर सुखबी सरोहा, महिला सेल की जिला अध्यक्ष नीलम ढिल्लो, रामशरण बंबलूिया, संजय सुहाग, अनिल गुलिया, अमित गुलिया, चिकित्सा सेल के अध्यक्ष डॉ. रवींद्र मलिक, महेंद्र आसोदा. राजबीर परनाला महर्प जासावा, राजधार परनाला, प्रदीप सिन्हा, अलीशेर खान, राज सिंह वर्मा, नाजिम खान, ईश्वर छिक्षर व प्रमोद कोशिक सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

### शहीद को सम्मान दिलाने के लिए एकजुट हुए गौ सेवक

ओपन मर्च मंवाददाता

झज्जर/बहादुरगढ़। गोसेवक योगेश कुमार और मोनू कादयाण ने संयुक्त



रूप से डीसी झज्जर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि क्षेत्र झज्जर के गांव हिमायुंपूर में 1971 की वार में शहीद हुए अमर बलिदानी रामकला जी का हुए अमर बित्यानी रामकला जी का कोई भी आज तक ना तो कोई स्मारक बना है, न कोई गेट चौपाल बना है, जो कि समाज में एक अच्छ प्रेरणा चरित्र के रूप में पेश किया जाना चाहिए था आज तक किसी पंच

सरपंच ने नहीं किया। जिससे आहत होकर गौ सेवक योगेश कुमार जाखड़, गौतम शर्मा ने अपने शहीदों का सम्मान दिलाने की प्रतिज्ञा उठाई। धीरे-धीरे इस मद्दे पर गौ

सेवकों की संख्या बढ़ती हुई और क्षेत्र के 50 से अधिक गौ सेवक इस मुहिम के लिए आगे आए। दीसी शक्ति सिंह ने

इस पहल का स्वागत किया और बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री से तत्कालीन व्यवस्था करवा कर गांव हुमायूंपुर के प्राथमिक विद्यालय का नाम अमर बलिदानी रामकला जी वे नाम पर होगा। और नामकरण के वक्त वह स्वयं भी उपस्थित सेंगे। इस अवसर पर गोसेवक योगेश कुमार जाखड़, गौसेवक मोनू कादयान, गौतम शर्मा, सत्री, देव भारद्वाज आदि मौजूद रहे।

### शिअद और भाजपा का एक-दूसरे के बिना मिशन पंजाब' पुरा होना कटिन

संगरूर के बाद जालंधर लोकसभा उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल (शिअद्) का प्रदर्शन बेहद खराब (शिअद) की प्रदेशन बहद खराब इतना रहा कि संगरूर में पार्टी पांचवें नंबर पर आई थी और जालंघर में तीसरे पर। दोनों ही चुनावों में सामान्य बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में शिअट मतदाताओं का भरोगा नहीं जीत पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही शिअद का प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो लेकिन जालंधर शहर जहां रहा हा, लाकन जालवर राहर जहा पर गठबंधन में रहते हुए भाजपा चुनाव लड़ा करती थी वहां पर शिअद सात हजार का आंकड़ा भी

नहीं छू पाया। जालंधर उपचुनाव के परिणाम से एक स्पष्ट तस्वीर भी उभर कर आ रही है कि शिअद और

. आते फिल्लौर, नकोदर, शाहकोट, करतार्पुर और आदमपुर तो छोड़ दिया जाए तो जालंधर वेस्ट जालंधर सेंटल और जालंघर नार्थ विशुद्ध शहरी क्षेत्र हैं। जबकि जालंघर केंट्र का एक बड़ा हिस्सा शहरी है। इन चारों ही शहरी क्षेत्र में मतदाताओं ने शिअद को वोत डालने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई।

CAPITAL FINVEST LIMITED

NOTICE

भाजपा का एक-दूसरे के बिना 'मिशान पंजाब' पूरा होना कठिन है। जालंधर लोकसभा क्षेत्र के तहत

# एनआईए की आतंकवाद और ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में बड़ी कार्रवाई, मोगा के बड़े व्यापारी के घर छापेमारी

नेशनल इन्बेस्टीगेशन एजेंसी की टीम

श्री मुक्तसर साहिब (एजेंसी)

नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी की टीम ने इस्स और आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब में अलग-अलग जगहों पर छांपमधी की है। बहु की टीम ने श्री मुक्तसर साहिव में कोटकपूर। येड पर एक खांस्म संस्थाओं से जुड़े एक शख्स के घर पर छांपमधी की है। टीम वहां 15-20 हिस्स करते हैं। मिनट तक ही रुकी। बाद में अन्य जिलों के लिए

रवाना हो गई। टीम सुबह पांच बजे यहां पहुंच गई थी। वहीं, मोगा के राजिंदरा स्टेट में शहर की बड़े किराना यापारियों में से एक बरूमल फर्म के मालिक के निवास पर एनआईए की



की टीम सुबह 6 बजे से घर के अंदर लगातार जांच पड़ताल कर रही है घर के बाहर पुलिस बल तैनात हैं। छपेमारी के दौरान घर के अंदर से किसी को आने दिया जा रहा है औ न ही किसी बाहर आने की अनुमति है। बता दें कि बारूमल फर्म शहर की सबसे बड़ी आतिशबाजी, किरयाना, घी के अलावा जगराओं में टाइल्स की मोगा के अलावा निहाल सिंह वाला तलवंडी भंगेरिया में भी एनआईए की तलवर्डी भगीरिया में भी एनआईए की टीम पहुंची है। इसके अलावा मुदकी और फिरोजपुर में भी सर्दिरधों के घर पर छापेमारी की गई है। एनआईए की टीम ने देश में 100 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है।

अमृतसर देहाती क्षेत्र के गांव

गुरजंट सिंह के घर एनआईए की टीम पहुंची। बुधवार को एनआईए की टीम ने यहां छापेमारी की। गुरजंट के खिलाफ़ हेरोइन तस्कृरी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। पता चला है क कई मामल दंज हो पता चला ह कि गुरजंट के खिलाफ कुख्यात गैंगस्टर जग्मू भगवानपुरिया से रिश्ते होने की भी पुलिस को खबर मिली थी। एनआईए की टीम ने गुरजंट सिंह

था। एनआइए का टाम न गुरजटा सह की मां से पूछताछ की है। बता दे एनआईए की टीम में पंजाब भर में गैंगस्टर और आतंकी मॉड्यूल पर जांच कर रही है। हल्का फतेहगढ़ साहिब के अधीन आते गांव सिधवा में गुर्ववंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह के घर में एनआईए की रेड हुई है।



#### T LIMITED

(CIN NO.-L18101DL1978PLC009241) Regd. Office: 879, Master Prithvi Nath Marg, Karol Bagh, New Delhi - 110005 Website: www.ttlimited.co.in; Email: newdelhi@ttlimited.co.in; TEL: +91-11-45060708

HiFlyers

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023										
						(Rs. in Lakhs)				
S.		QUARTER ENDED			YEAR ENDED					
NO.	PARTICULARS	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2022				
140.		AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	AUDITED	AUDITED				
1	Total Income from Operations (Net)	5,829.32	4,815.27	7,485.40	20,302.72	39,554.16				
2	Profit/(Loss) before Exeptional and tax	(560.57)	143.56	151.34	(895.86)	1,494.15				
3	Exceptional items	-	-	-	-	-				
4	*Net Profit/(Loss) for the period before Tax	(560.57)	143.56	151.34	(895.86)	1,494.15				
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(315.52)	82.55	110.22	(1,267.23)	1,453.03				
	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising									
6	Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other	(255.52)	44.82	25.71	(1,259.86)	1,375.67				
	Comprehensive Income(after tax)]									
7	Equity Share Capital	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2,149.81	2149.81				
8	Other equity (Reserves)	-	-	-	4,564.80	5824.66				
9	Earnings Per Equity Share (of Rs. 10/- each)									
	(for continuing and discontinued operations)-									
	Basic (Rs.)	(1.47)	0.38	0.51	(5.89)	6.76				
	Diluted (Rs.)	(1.47)	0.38	0.51	(5.89)	6.76				

Audited Financial results
 ngs held on May 17, 2023.